

सं. N 061404



EMG/CCTDR/DARDIV
Central Bank
of India

(A Government of India Undertaking)
Central Office :
Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

शाखा क्र. सं. BR Sr. No. 1
शाखा का नाम :
श्री. लक्ष्मी नंदन

शाखा का प्रकार :
(अनुमोदित शाखा का प्रकार)
श्री. लक्ष्मी नंदन

सा. ज. र. /
ध. वृ. ज. प्र.
मा / त्रै / व्या. ज. र. /

TERM DEPOSIT RECEIPT

प्रभावी होने की तारीख / Effective Date
13 Aug 2018

खाता क्र. A/c No.
3699237829

जारी करने की तारीख / Date Of Issue
13 Aug 2018

Received from Mr. Parmarand Yadav

रुपये / Rupees Two core fifteen thousand only

प्राप्त हुए

मूल राशि Principal Amount	परिवर्द्धता मूल्य (*) Maturity Value (*)	अवधि Period	व्याज दर Int. Rate	व्याज की मासिक / त्रैमा. किरा Mthly/Qtylly Inst of Int.	निवृत्त तारीख Due Date
2,15,000/-	2,22,044/-	06 Months	6.50%		13.02.2019
विशेष अनुदेश Special Instructions					14.05.2024

जन्मतिथि / Date of Birth
चक्र. सं. / S.S. No.
हस्ताक्षर / Authorised Signatory

नामांकन पंजीकृत किया गया
Nomination Registered
हो / Yes
नहीं / No

आहरण की सूचना दि.
Notice of withdrawal given on

**Maturity Value/Interest amount is subjected to deduction of TDS as per IT Rules.
"BANK WILL DEDUCT TAX AT SOURCE FROM THE INTEREST PAID / ACCRUED. IF FORM 15G/15H IS NOT SUBMITTED IN THE MONTH OF APRIL EVERY YEAR"

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

AUTOMATIC RENEWAL

Date of Renewal	A/c. No.	Period	Amount	Interest Rate	Due Date	Maturity Value	Office Signature
14.08/18	✓	6000	215000/-	6.50%	18-11-2024	316557	TP

न्यायिकन पंजीकृत किया गया
Nomination Registered

हाँ Yes ☐ नहीं No ☐

दिनांक / Date _____
संदर्भ सं / Ref. No _____

अधिकारी / Officer
ह.क्र.सं. / S.S.No.

ग्रहणाधिकार विवरण / Lien Details

देय किया गया / Marked on _____
रद्द किया गया / Cancelled on _____

दिनांक / Date _____
अधिकारी / Officer _____
ह.क्र.सं. / S.S.No. _____

1. _____
2. _____
3. _____

भुगतान सौंदर्य / RECEIPT ON DISCHARGE

Received payment of _____
रुपये / Rupees _____

का भुगतान प्राप्त हुआ _____
राज्य _____
टिकट _____
Revenue _____
Stamp _____

दिनांक / Date _____
अमाकर्त / ऑ के हस्ताक्षर _____
Signature(s) of Depositor(s)

- प्रमाण - पत्र अहस्तांतरणीय है।
Certificates are not transferable.
- अमाकर्त को परिपक्वता मूल्य प्राप्त करने हेतु प्रमाण-पत्र पर निवत तिथि दर्ज की जाती है बैंक इसके अलावा निवत तिथि की अन्य कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है।
Due date is recorded on the Certificate to enable the depositor to receive Maturity value. The Bank is not bound to give any further intimation of the due date.
- आवश्यकता पर प्रमाण-पत्र किसी एक अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम जारी किए जाते हैं और उनका भुगतान उनमें से किसी एक अथवा अधिक अथवा उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाता है।
Certificates are, when so required, issued in the names of two or more persons and made payable to anyone or more of them or to the survivor or survivors.
- * क) सा.ज.र. के मामले में उस पर अर्धवार्षिक अथवा परिपक्वता पर ब्याज, रसीद प्रस्तुत करने पर अदा किया जायेगा।
In case of FDR, the interest thereon will be paid on production of Receipt, half yearly or on Maturity.
ख) सा.ज.र. / नि.ज.र. के मामले में उस पर ब्याज प्रत्येक माह / तिमाही में अदा किया जायेगा।
In case of MIDR / QIDR, interest thereon will be paid every Month / Quarter.
ग) ध.ज.र. के मामले में प्रमाण-पत्र के परिपक्वता मूल्य में, जमा की गई राशि पर तिमाही अथवा लंबी अवधि पर परिकल्पित ब्याज शामिल होता है, जिसका पुनर्निवेश किया जाता है। अतः प्रमाण-पत्र दर्ज निवत तिथि से पहले ब्याज अदा नहीं किया जायेगा।
In case of MMDC, Maturity Value of the Certificate includes the interest calculated at quarterly of longer rests on the amount deposited, being re-invested with the Bank. No interest shall therefore be payable before the due date recorded on the Certificate.
- प्रमाण-पत्र पर रखाई गई निवत तारीख के बाद ब्याज की अग्रपिंडी नहीं होगी।
No interest shall be allowed on the Certificate after the due date indicated in the Certificate.
- प्रमाण-पत्र को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाये। प्रमाण-पत्र किसी अन्य व्यक्ति के दाय लगने पर और उनके कपटपूर्ण अधिकार का प्रयोग करके (को) को होने वाली हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं रहेगा।
Certificate must be carefully preserved. The Bank will not be responsible for any loss caused to the holder(s) by another person obtaining possession of the Certificate and fraudulently discharging it.
- निवत तिथि पर भुगतान प्राप्त करने समय अमाकर्त (ओं) द्वारा प्रमाण-पत्र विधिवत टिकट लगा हुआ एवं हस्ताक्षरित वापस किया जाना चाहिए।
Certificate must be returned duly stamped and signed by the depositor(s) at the time of receiving payment on due date.
- प्रमाण-पत्र का भुगतान केवल अमाकर्त (ओं) को विधिवत विमुक्त प्रमाण-पत्र सौंपने पर या अमाकर्त (ओं) की ओर से, अमाकर्त के दाय तिथि के पहले नहीं किया जायेगा।
Payment of the Certificate will be made to the depositor(s) only on surrender of the Certificate duly discharged or to any person on behalf of the depositor(s) if the discharged certificate is accompanied by a proper Letter of Authority, but no payment will be made before the due date marked on the Certificate.
- अमाकर्त पर दी जाने वाली ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन है।
The rate of interest payable on the deposit is subject to the directives that may be issued by the RBI from time to time.
- "Auto-renewal mandate will be treated as cancelled if the deposit is under Bank's lien" and depositor will give fresh mandate on due date/maturity date of the deposit.

नियम व शर्तें
TERMS & CONDITIONS